

Dan

Chapter 9

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1
בְּשָׁנָה אֶחָת לְדָרָוֶשׁ בֶּן-אֶחָשֶׁרוֹשׁ מִזֶּרַע מָדִי אֲשֶׁר הָמְלִךְ עַל מְלָכֹת
में-वर्ष एक के-दारा पुत्र-के-दारा अहश्वरोश-के से-वंश मादी-के जो राजा-बना पर राज्य
H8141 H0259 H1867 H0325 H2233 H4074 H4438

כְּשָׂדִים:
का-कस्दियों
H3778

राजा दारा के शासन के पहले वर्ष के दौरान ये बातें घटी थीं। दारा क्षयरथ नाम के व्यक्ति का पुत्र था। दारा मादी लोगों से सम्बन्धित था। वह बाबुल का राजा बना।

2
בְּשָׁנָה אֶחָת לְמַלְכּוֹ אֲנִי דָּנְיָאֵל דָּנִיְיָאֵל בִּינְתִי בְּסֻפְרֵים מִסְפָּר הַשָּׁנִים אֲשֶׁר הָיָה
में-वर्ष एक के-उसके-राज्य मैं मैं दानिय्येल दानिय्येल मैं समझा-मैंने पुस्तकों-में गिनती वर्षों-की जो था
H8141 H0259 H0589 H1840 H0995 H4557 H1961

דָּבָר-וְהָיָה אֵל-יִרְמְיָהּ הַנָּבִיא לְמַלְאוֹת לְחַרְבוֹת יְרוּשָׁלַם שְׁבַעִים שָׁנָה:
वचन-यहोवा-का को-यिर्मयाह नबी के-उजाड़ के-करने-के-लिए पूरा-करने-के-लिए यरूशलेम सत्तर वर्ष
H1697 H3068 H0413 H3414 H5030 H4390 H2723 H3389 H7657 H8141

दारा के राजा के पहले वर्ष में मैं, दानिय्येल कुछ किताबें पढ़ रहा था। उन पुस्तकों में मैंने देखा कि यहोवा ने यिर्मयाह को यह बताया है कि यरूशलेम का पुनःनिर्माण कितने बरस बाद होगा। यहोवा ने कहा था कि इससे पहले कि यरूशलेम फिर से बसे, सत्तर वर्ष बीत जायेंगे।

3
וְאָתְנָה אֶת-פְּנֵי אֵל-אֲדֹנָי הָאֱלֹהִים לְבַקֵּשׁ תְּפִלָּה וּתְחִנּוּגִים בְּצוּם
और-लगाया-मैंने को-मुंह-अपना की-ओर-आदोनाई आदोनाई एलोहीम लूँढने-को प्रार्थना और-विनतियाँ में-उपवास
H5414 H0853 H6440 H0413 H0136 H0430 H1245 H8605 H8469 H6685

וְשָׂק וְאַפָּר:
और-टाट और-राख
H8242 H0665

फिर मैं अपने स्वामी परमेश्वर की ओर मुड़ा और उससे प्रार्थना करते हुए सहायता की याचना की। मैंने भोजन करना छोड़ दिया और ऐसे कपड़े पहन लिये जिनसे यह लगे कि मैं दुःखी हूँ। मैंने अपने सिर पर धूल डाल ली।

4
וְאֶתְפַּלְלָה וְאֶתְנָה אֶת-פְּנֵי אֵל-אֲדֹנָי הָאֱלֹהִים לְבַקֵּשׁ תְּפִלָּה וּתְחִנּוּגִים בְּצוּם
और-प्रार्थना-की-मैंने को-यहोवा मेरे-एलोहीम और-अंगीकार-किया-मैंने और-कहा-मैंने हे आदोनाई एल
H6419 H3068 H0430 H3034 H0559 H0577 H0136 H0410

הִגְדֹּל הַהַנּוֹרָא וְהַנּוֹרָא שָׁמַר וְהַנּוֹרָא וְהַנּוֹרָא וְהַנּוֹרָא
बड़ा और-भयावह रखनेवाला वाचा और-कृपा के-लिए-प्रेम-करनेवालों के-लिए-पालन-करनेवालों और-के
H3372 H8104 H1285 H0157 H8104

מִצְוֹתָיו:
उसकी-आज्ञाओं
H4687

मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करते हुए उसको अपने सभी पाप बता दिये। मैंने कहा, “हे यहोवा, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है। जो व्यक्ति तुझसे प्रेम करते हैं, तू उनके साथ प्रेम और दयालुता के वचन को निभाता है। जो लोग तेरे आदेशों का पालन करते हैं उनके साथ तू अपना वचन निभाता है।

5
 וְקָרָא וּמְרִדְנוּ (הַרְשָׁעָנוּ) וְהִרְשָׁעָנוּ וְעָוִינוּ הִטָּאָנוּ
 और-मुड़े और-विद्रोह-किया-हमने (दुष्टता-की-हमने) [और-दुष्टता-की-हमने] और-कुटिलता-की-हमने पाप-किया-हमने
[H5493](#) [H4775](#) [H7561](#) [H7561](#) [H2398](#)

וּמִנְשַׁפְּטָיוּךָ : מִמְצֹאֹתָיִךָ
 और-तेरे-नियमों-से तेरी-आज्ञाओं-से
[H4941](#) [H4687](#)

“किन्तु हे यहोवा, हम पापी हैं! हमने बुरा किया है। हमने कुकर्म किये हैं। हमने तेरा विरोध किया है। तेरे निष्पक्ष न्याय और तेरे आदेशों से हम दूर भटक गये हैं।

6
 מְלִכֵינוּ אֶל-בְּשֵׁמוֹךָ הַבְּרָרָה אֲשֶׁר הִנְבִּיאִים עֲבָדֶיךָ אֶל-שְׁמוֹעָנוּ וְלֹא שְׂרִינֵנו
 हमारे-राजाओं की-तेरे-नाम-से बोला जिन्होंने नबियों तेरे-दासों की-सुना-हमने और-नहीं हमारे-सरादारों
[H4428](#) [H0413](#) [H8034](#) [H1696](#) [H5030](#) [H5650](#) [H0413](#) [H8085](#) [H3808](#)
 הָאָרֶץ : עַם כָּל-וְאֵל וְאֲבֹתֵינוּ וְשָׂרֵינוּ
 देश-के लोग सब-और-की-और-हमारे-पिताओं हमारे-सरादारों
[H0776](#) [H3605](#) [H0413](#) [H0001](#) [H8269](#)

हम नबियों की बात नहीं सुनते। नबी तो तेरे सेवक हैं। नबियों ने तेरे बारे में बताया। उन्होंने हमारे राजाओं, हमारे मुखियाओं और हमारे पूर्वजों को बताया था। उन्होंने इस्राएल के सभी लोगों को भी बताया था। किन्तु हमने उन नबियों की नही सुनी!

7
 יְהוָה לְאִישׁ הַזֶּה כִּי־הַיּוֹם בְּשֵׁת הַפְּנִים וְלֵנוּ הַצְּדָקָה אֲרֹנֵי לֵךְ יְהוָה
 यहूदाह-के को-पुरुष इस जैस-आज-के-दिन मुखों-की लज्जा और-हमारी धार्मिकता आदोनाई तेरी
[H3063](#) [H0376](#) [H2088](#) [H3117](#) [H6440](#) [H1322](#) [H6666](#) [H0136](#)
 אֲשֶׁר הָאָרְצוֹת בְּכָל-וְהָרְחֹקִים הַקְּרִבִּים יִשְׂרָאֵל וְלִכְלָל-יְרוּשָׁלַם וְלִישְׁבֵי
 जहाँ देशों में-सब-और-दूरों निकटों इस्राएल और-सब-यरूशलेम-के और-को-रहनेवालों
[H0776](#) [H3605](#) [H7350](#) [H7138](#) [H3478](#) [H3605](#) [H3389](#) [H3427](#)
 : בָּרָה מְעַלְוֵה-אֲשֶׁר בְּמַעַלְוֵם שָׁם הַרְחַתְמוּ
 तेरे-विरुद्ध विश्वासघात-किया-उन्होंने-जो उनके-विश्वासघात-के-कारण वहाँ खदेड़ा-तूने-उनको
[H4603](#) [H4604](#) [H8033](#) [H5080](#)

“हे यहोवा, तू खरा है, और तुझमें नेकी है! जबकी आज हम लज्जित हैं। यरूशलेम और यहूदा के लोग लज्जित हैं—इस्राएल के सभी लोग लज्जित हैं। वे लोग जो निकट हैं और वे लोग जो बहुत दूर हैं। हे यहोवा! तूने उन लोगों को बहुत से देशों में फैला दिया। उन सभी देशों में बसे इस्राएल के लोगों को शर्म आनी चाहिये। हे यहोवा, उन सभी बुरी बातों के लिये, जो उन्होंने तेरे विरुद्ध की हैं, उन्हें लज्जित होना चाहिये।

8
 הִטָּאָנוּ אֲשֶׁר וְלֹאֲבֹתֵינוּ לְשָׂרֵינוּ לְמַלְכֵינוּ הַפְּנִים לָנוּ יְהוָה
 पाप-किया जिन्होंने और-को-हमारे-पिताओं को-हमारे-सरादारों को-हमारे-राजाओं मुखों-की लज्जा हमारी यहोवा
[H2398](#) [H0001](#) [H8269](#) [H4428](#) [H6440](#) [H1322](#) [H3068](#)
 : לָךְ
 तेरे-विरुद्ध

“हे यहोवा, हम सबको लज्जित होना चाहिये। हमारे सभी राजाओं और मुखियाओं को लज्जित होना चाहिये, हमारे सभी पूर्वजों को लज्जित होना चाहिये। ऐसा क्यों ऐसा इसलिये कि हे यहोवा, हमने तेरे विरुद्ध पाप किये हैं।

9
 : בָּרָה מְרִדְנוּ כִּי וְהַסְּלַחְתָּ אֵלֵינוּ הַרְחָמֵם אֵלֵינוּ לְאֵלֵינוּ
 उसके-विरुद्ध विद्रोह-किया-हमने क्योंकि दया और-क्षमा दया हमारे-एलीहीम के-आदोनाई
[H4775](#) [H5547](#) [H0430](#) [H0136](#)

“किन्तु हे यहोवा, तू दयालु है। लोग जो बुरे कर्म करते हैं तो तू उन्हें, क्षमा कर देता है। हमने वास्तव में तुझसे मुँह फेर लिया था।

לְפָנָיו	נָתַן	אֲשֶׁר	בְּתוֹרָתוֹ	לְלַכֵּת	אֱלֹהֵינוּ	יְהוָה	בְּקוֹל	שָׁמְעָנוּ	וְלֹא	10
हमारे-सामने	दी	जो	उसकी-व्यवस्थाओं-में	चलने-को	हमारे-एलोहीम	यहोवा	के-वचन	सुना-हमने	और-नहीं	
H6440	H5414		H8451	H3212	H0430	H3068		H8085	H3808	

הַנְּבִיאִים: עֲבָדָיו בֵּית
 नबियों उसके-दासों में-हाथ
[H5030](#) [H5650](#) [H3027](#)

हमने अपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। यहोवा ने अपने सेवकों, अपने नबियों के द्वारा हमें व्यवस्था का विधान प्रदान किया। किन्तु हमने उसकी व्यवस्थाओं को नहीं माना।

בְּקוֹלְךָ	שָׁמָעָה	לְבַלְתִּי	וְסוֹר	תּוֹרָתְךָ	אֶת-	עָבְרוּ	יִשְׂרָאֵל	וְכָל-	11
तेरे-वचन-को	सुनने	के-लिए-नहीं	और-मुड़े	तेरी-व्यवस्था	को-	उल्लंघन-किया	इस्राएल-ने	और-सब-	
	H8085	H1115	H5493	H8451	H0853		H3478	H3605	

כִּי	הָאֱלֹהִים	עָבְדָה	מֹשֶׁה	בְּתוֹרַת	כְּתוּבָה	אֲשֶׁר	וְהִשְׁבַּעְהָ	הָאֱלֹהָה	עָלֵינוּ	וַתִּתְּנֵנוּ	כִּי
क्योंकि	एलोहीम-के	दास-	मूसा	में-व्यवस्था	लिखा-हुआ	जो	और-शपथ	शाप	हम-पर	और-उंडेला-गया	क्योंकि
	H0430	H5650	H4872	H8451	H3789		H7621	H0423		H5413	

לְ: חַטָּאתוֹ
 उसके-विरुद्ध पाप-किया-हमने
[H2398](#)

इस्राएल का कोई भी व्यक्ति तेरी शिक्षाओं पर नहीं चला। वे सभी भटक गये थे। उन्होंने तेरे आदेशों का पालन नहीं किया। मूसा, (जो परमेश्वर का सेवक था) की व्यवस्था के विधान में शपथों और वादों का उल्लेख हुआ है। वे शाप और वादे व्यवस्था के विधान पर नहीं चलने के दण्ड का बखान करते हैं और वे सभी बातें हमारे संग घट चुकी हैं क्योंकि हमने यहोवा के विरोध में पाप किये हैं।

שְׁפִטָּיוֹנוּ	וְעַל	עָלֵינוּ	דְּבַר	אֲשֶׁר-	וּלְדְבָרָיו	אֶת-	וְיָקָם	12
हमारे-न्यायधीशों	और-पर	हम-पर	बोला-उसने	जो-	(उसका-वचन)	[उसके-वचनों]	को- और-पूरा-किया-उसने	
H8199			H1696		H1697	H1697	H0853	

אֲשֶׁר	שְׁפִטָּנוּנוּ	לְהַבִּיאַ	עָלֵינוּ	רַעְיָה	גְּדֹלָה	אֲשֶׁר	לֹא-	נַעֲשֶׂתָה	תַּחַת	כָּל-
जिन्होंने	न्याय-किया-हमको	लाने-को	हम-पर	विपत्ति	बड़ी	जो	नहीं-	की-गई	नीचे	सारे-
	H8199	H0935					H3808		H8478	H3605

הַשָּׁמַיִם כְּאֲשֶׁר נַעֲשֶׂתָה בִּירוּשָׁלַם:
 आकाश-के जैसा की-गई में-यरूशलेम
[H8064](#) [H3389](#)

“परमेश्वर ने बताया था कि हमारे साथ और हमारे मुखियाओं के साथ वे बातें घटेंगी और उसने उन्हें घटा दिया। उसने हमारे साथ भयानक बातें घटा दीं। यरूशलेम को जितना कष्ट उठाना पड़ा, किसी दूसरे नगर ने नहीं उठाया।

כְּאֲשֶׁר	כְּתוּב	בְּתוֹרַת	מֹשֶׁה	אֶת-	כָּל-	הָרַעְיָה	הַזֹּאת	בָּאָה	עָלֵינוּ	וְלֹא-
जैसा	लिखा-हुआ	में-व्यवस्था	मूसा-की	को-	सब-	विपत्ति	यह	आई	हम-पर	और-नहीं-
	H3789	H8451	H4872	H0853	H3605		H2063	H0935		H3808

חַלֵּינוּ	אֶת-	אֶפְרָיִם	יְהוָה	אֱלֹהֵינוּ	לְשׁוֹב	מִעֲוֲנוֹנוּ	וְלֹהֲשִׁיבֵנוּ	בְּאֵמֶתְךָ:
मनाया-हमने	को-	चेहरा	यहोवा	हमारे-एलोहीम	लौटने-को	अपने-अधर्म-से	और-समझदार-होने-को	तेरी-सच्चाई-में
	H0853	H6440	H3068	H0430	H7725	H5771		H0571

वे सभी भयानक बातें हमारे साथ भी घटीं। यह बातें ठीक वैसे ही घटीं, जैसे मूसा के व्यवस्था के विधान में लिखी हुई हैं। किन्तु हमने अभी भी परमेश्वर से सहारा नहीं माँगा है! हमने अभी भी पाप करना नहीं छोड़ा है। हे यहोवा, तेरे सत्य पर हम अभी भी ध्यान नहीं देते।

וַיִּשְׁקַךְ	יְהוָה	עַל-	הָרַעְיָה	וַיְבִיאָהּ	עָלֵינוּ	כִּי-	צָדִיק	יְהוָה	אֱלֹהֵינוּ	14
और-जागता-रहा	यहोवा	पर-	विपत्ति	और-लाया-उसे	हम-पर	क्योंकि-	धार्मिक	यहोवा	हमारे-एलोहीम	
H8245	H3068			H0935			H6662	H3068	H0430	

עַל-כָּל-מַעֲשָׂיוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה וְלֹא שָׁמְעָנוּ בְּקוֹלֹ:
 पर-उसके-काम सब-पर-और-नहीं किया-उसने जो उसके-काम सब-पर-उसके-वचन-को सुना-हमने
[H4639](#) [H3605](#) [H8085](#) [H3808](#)

यहोवा ने वे भयानक बातें तैयार रख छोड़ी थीं और उसने हमाने साथ उन बातों को घटा दिया। हमारे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा इसलिये किया था कि वह तो जो कुछ भी करता है, न्याय ही करता है। किन्तु हम अभी भी उसकी नहीं सुनते।

15	וְעַתָּה	אֲדֹנָי	אֱלֹהֵינוּ	אֲשֶׁר	הוֹצֵאתָ	אֶת-	עַמֶּךָ	מֵאֶרֶץ	מִצְרַיִם	בְּיַד	חַזְקָה
	और-अब	आदोनाई	हमारे-एलोहीम	जिसने	निकाला-तूने	को-	तेरे-लोगों	से-देश	मिस्र	में-हाथ	शक्तिशाली
	H6258	H0136	H0430		H3318	H0853		H0776	H4714	H3027	H2389

וְעַתָּה- और-बनाया-
 לָךְ-के-लिए-तुझे
 שְׁמִי-नाम
 כִּי-जैसा-आज-के-दिन
 הָיָה-इस
 חַטָּאת-पाप-किया-हमने
 רָשָׁעוֹ: दुष्टता-की-हमने
[H8034](#) [H3117](#) [H2088](#) [H2398](#) [H7561](#)

“हे हमारे परमेश्वर, यहोवा, तूने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और हमें मिस्र से बाहर निकाल लाया। हम तो तेरे अपने लोग हैं। आज तक उस घटना के कारण तू जाना माना जाता है। हे यहोवा, हमने पाप किये हैं। हमने भयानक काम किये हैं।

16	אֲדֹנָי	כְּכֹל-	צְדִקְתְּךָ	יִשָּׁב-	גָּא	אֶפְסָה	וַחֲמַתְּךָ	מִעִירָךְ	יְרוּשָׁלַם	הָרַ-
	आदोनाई	के-अनुसार-सब-	तेरी-धार्मिकता	लौटे-	कृपया	तेरा-क्रोध	और-तेरा-रोष	तेरे-नगर-से	यरूशलेम	पहाड़-
	H0136	H3605	H6666	H7725	H4994	H0639	H2534		H3389	H2022

קְדֻשָּׁתְךָ-तेरी-पवित्रता-के
 כִּי-क्योंकि
 בְּחַטָּאתֵינוּ-हमारे-पापों-के-कारण
 וּבְעֹנֹת-और-अधर्मों-के-कारण
 אֲבֹתֵינוּ-हमारे-पिताओं-के
 יְרוּשָׁלַם-यरूशलेम
 וְעַמֶּיךָ-और-तेरे-लोग
[H6944](#) [H2399](#) [H5771](#) [H0001](#) [H3389](#)

לְחַרְפָּה-के-लिए-निंदा
 לְכֹל-के-लिए-सब-
 סְבִיבֹתֵינוּ: हमारे-आसपासों
[H2781](#) [H3605](#) [H5439](#)

हे यहोवा, यरूशलेम पर क्रोध करना छोड़ दे। यरूशलेम तेरे पवित्र पर्वतों पर स्थित है। तू जो करता है, ठीक ही करता है। सो यरूशलेम पर क्रोध करना छोड़ दे। हमारे आसपास के लोग हमारा अपमान करते हैं और हमारे लोगों की हँसी उड़ाते हैं। हमारे पूर्वजों ने तेरे विरुद्ध पाप किया था। यह सब कुछ इसलिये हो रहा है।

17	וְעַתָּה	שָׁמַע	אֱלֹהֵינוּ	אֶל-	תְּפִלָּת	עֲבָדְךָ	וְאֶל-	תַּחֲנוּנֵינוּ	וְהֶאֱרַ	פְּנֵיךָ
	और-अब	सुन	हमारे-एलोहीम	की-	प्रार्थना	तेरे-दास-की	और-की-	उसकी-विनतियों	और-चमका	तेरा-मुँह
	H6258	H8085	H0430	H0413	H8605	H5650	H0413	H8469	H0215	H6440

עַל-पर-
 מִקְדָּשְׁךָ-तेरे-पवित्र-स्थान
 הַשָּׁמַע-उजड़े-हुए
 לְמַעַן-के-लिए
 אֲדֹנָי: आदोनाई
[H4720](#) [H8076](#) [H4616](#) [H0136](#)

“अब, हे यहोवा, तू मेरी प्रार्थना सुन ले। मैं तेरा दास हूँ। सहायता के लिये मेरी विनती सुन। अपने पवित्र स्थान के लिए तू अच्छी बातें कर। वह भवन नष्ट कर दिया गया था। किन्तु हे स्वामी, तू स्वयं अपने भले के लिए इन भली बातों को कर।

18	הַטָּה	וְאֶלְהֵי	אֲזַנְךָ	וְשָׁמַעַ	פְּקֻחָה]	פְּקֻחָה(עֵינֶיךָ	וְרֵאךָ	שָׁמַעְנוּ
	झुका	मेरे-एलोहीम	तेरा-कान	और-सुन	[खोल]	(खोल)	तेरी-आँखें	और-देख	हमारे-उजाड़े-हुए-स्थानों-को
	H5186	H0430	H0241	H8085	H6491	H6491	H7200		

וְהָעִיר-और-नगर
 אֲשֶׁר-जिस-पर-
 נִקְרָא-पुकारा-जाता-है
 שְׁמִי-तेरा-नाम
 עָלֶיךָ-उस-पर
 וְכִי-क्योंकि
 לֹא-नहीं
 עַל-पर-
 אֲנִי-हम
 צְדִקְתֵינוּ-हमारी-धार्मिकता
 אֲנִי-हम
[H7121](#) [H8034](#) [H3808](#)

מִפְּלִי-हैं-गिराते-हैं
 תַּחֲנוּנֵינוּ-अपनी-विनतियाँ
 לְפָנֶיךָ-तेरे-सामने
 כִּי-परन्तु
 עַל-पर-
 רַחֲמֶיךָ-तेरी-दया
 הָרַבִּים: बहुत
[H5307](#) [H8469](#) [H6440](#)

हे मेरे परमेश्वर, मेरी सुन! जरा अपनी आँखें खोल और हमारे साथ जो भयानक बातें घटी हैं, उन्हें देख! वह नगर जो तेरे नाम से पुकारा जाता था, देख उसके साथ क्या हो गया है! मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम अच्छे लोग हैं। इसलिये मैं इन बातों की याचना कर रहा हूँ। यह याचना तो मैं इसलिये कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि तू दयालु है।

אלהי मेरे-एलोहीम	למענך तेरे-कारण-से	האחר देर-कर	אל- नहीं-	ועשה और-कर	הקשיבה ध्यान-दे	אדוני आदोनाई	סלחה क्षमा-कर	ואדוני आदोनाई	שמעה सुन	ואדוני आदोनाई	19
H0430	H4616	H0309	H0408		H7181	H0136	H5545	H0136	H8085	H0136	

כי-
क्योंकि-

שמך
तेरा-नाम

נקרא
पुकारा-जाता-है

על-
पर-

עירך
तेरे-नगर

ועל-
और-पर-

עמך
तेरे-लोगों

[H7121](#)

[H8034](#)

हे यहोवा मेरी सुन, हे यहोवा, हमें क्षमा कर दें। यहोवा, हम पर ध्यान दे, और फिर कुछ कर! अब और प्रतीक्षा मत कर! इसी समय कुछ कर! उसे तू स्वयं अपने भले के लिये कर! हे परमेश्वर, अब तो अपने नगर और अपने उन लोगों के लिये, जो तेरे नाम से पुकारे जाते हैं, कुछ कर।”

עמי मेरे-लोगों	וחטאת और-पाप	חטאתי अपना-पाप	ומתוה और-अंगीकार-कर-रहा-था	ומתפלל और-प्रार्थना-कर-रहा-था	מדבר बोल-रहा-था	אני मैं	ועוד और-अभी	20
			H3034	H6419	H1696	H0589	H5750	

אלהי: मेरे-एलोहीम-के	קדש पवित्र-के	הר- पहाड़-	על पर	אלהי मेरे-एलोहीम	יהוה यहोवा	לפני के-सामने	תחנתי मेरी-विनती	ומפיל और-गिरा-रहा-था	ישאל इस्राएल-का
H0430	H6944	H2022		H0430	H3068	H6440	H8467	H5307	H3478

मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए ये बातें कर रहा था। मैं इस्राएल के लोगों के और अपने पापों के बारे में बता रहा था। मैं परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर प्रार्थना कर रहा था।

בתחלה पहले	בדיון दर्शन-में	ראיתי देखा-मैंने	אשר जिसे	גבראל जिब्राएल	והאיש और-पुरुष	בתפלה प्रार्थना-में	מדבר बोल-रहा-था	אני मैं	ועוד और-अभी	21
H8462	H2377	H7200		H1403	H0376	H8605	H1696	H0589	H5750	

מגע
उड़ता-हुआ

ביעף
उड़ान-में

נגע
छूता-हुआ

אלי
मुझे

כעת
के-समय

מנחת-
भेंट-

ערב:
सांझ-की

[H6153](#)

[H4503](#)

[H6256](#)

[H0413](#)

[H5060](#)

[H3288](#)

[H3286](#)

मैं अभी प्रार्थना कर ही हा था कि जिब्राएल मेरे पास आया। जिब्राएल वही स्वर्गदूत था जिसे मैंने दर्शन में देखा था। जिब्राएल शीघ्रता से मेरे पास आया। वह सांझ की बलि के समय आया था।

בינה: समझ	להשכיל समझाने-को-तुझे	יצאתי आया-मैं	עתה अब	דניאל दानियेल	ויאמר और-कहा-उसने	עמי मुझसे	וידבר और-बोला	ויבן और-समझाया-उसने	22
H0998		H3318	H6258	H1840	H0559		H1696	H0995	

मैं जिन बातों को समझना चाहता था, उन बातों को समझने में जिब्राएल ने मेरी सहायता की। जिब्राएल ने कहा, “हे दानियेल, मैं तुझे बुद्धि प्रदान करने और समझने में तेरी सहायता को आया हूँ।

ובין और-समझ	אתה तू	חמודות प्रिय	כי क्योंकि	להגיד बताने-को	באתי आया-मैं	ואני और-मैं	דבר वचन	יצא निकला	תחננתי तेरी-विनतियों-के	בתחלת शुरू-में	23
H0995				H5046	H0935	H0589	H1697	H3318	H8469	H8462	

בדבר
वचन-में

והבן
और-समझ

במראה:
दर्शन-को

[H4758](#)

[H0995](#)

[H1697](#)

जब तूने पहले प्रार्थना आरम्भ की थी, मुझे तभी आदेश दे दिया गया था और देख मैं तुझे बताने आ गया हूँ। परमेश्वर तुझे बहुत प्रेम करता है! यह आदेश तेरी समझ में आ जायेगा और तू उस दर्शन का अर्थ जान लेगा।

24 שְׁבַעִים שְׁבַעִים נְחִתָּהּ עַל- אַעֲמִן וְעַל- עִיר קְדֻשָּׁה לְכֹלֵא הַפֶּשַׁע
 सप्ताह सप्ताह सप्ताह पर- पर- और-पर- तेरे-लोगों तेरी-पवित्रता-के नगर रोकने-को अपराध
 H7657 H7620 H2852 H2852 H6944 H3607 H6588

וְלַחֲתָם] וְלַחֲתָם (וְלַחֲתָם) (וְלַחֲתָם) (וְלַחֲתָם)
 [और-मुहर-लगाने-को] (और-खत्म-करने-को) [पापों] (पाप) और-प्रायश्चित्त-करने-को और-प्रार्थना-करने-को अधर्म और-लाने-को
 H2856 H8552 H2403 H5771 H0935

צְדָקָה עֲלָמִים וְלַחֲתָם חֲזוֹן וְנָבִיא וְלַמְשִׁיחַ קִדְשׁ קְדָשִׁים:
 धार्मिकता सदा-की और-मुहर-लगाने-को दर्शन और-नबी और-अभिषेक-करने-को पवित्र पवित्रो-का
 H6664 H5769 H2856 H2377 H5030 H4886 H6944 H6944

“हे दानिय्येल, परमेश्वर ने तेरी प्रजा और तेरी नगरी के लिए सत्तर सप्ताहों का समय निश्चित किया है। सत्तर सप्ताहों के समय का यह आदेश इसलिये दिया गया है कि बुरे कर्म करना छोड़ दिया जाये, पाप करना बन्द कर दिया जाये, सब लोगों को शुद्ध किया जाये, सदा—सदा बनी रहने वाली नेकी को लाया जाये, दर्शन और नबियों पर मुहर लगा दी जाये, और एक अत्यंत पवित्र स्थान को समर्पित किया जाये।

25 וְתָרַע וְתִשְׁלַל מִן- מִצָּא רָבָר לְהָשִׁיב וְלִבְנוֹת יְרוּשָׁלַם עַד- מְשִׁיחַ נְאִיד
 और-जान और-समझ से- निकलने वचन-के लौटाने-को और-बनाने-को यरूशलेम तक- मसीहा नागीद
 H3045 H4161 H1697 H7725 H1129 H3389 H5704 H4899 H5057

שְׁבַעִים שְׁבַעִים וְשָׁבַעִים שְׁשִׁים וְשָׁנִים תְּשׁוּבָה וְנִבְנְתָה רְחֹב וְחָרוֹץ וּבְצֹק
 सप्ताह सप्ताह सात और-सप्ताह साठ और-दो और-दो लौटेंगी और-बनाई-जाएगी चौक और-खाई और-कष्ट-में
 H7620 H7620 H8346 H8147 H7725 H1129 H7339

הַעֲתִים:
 समयों-के
 H6256

“दानिय्येल, तू इन बातों को समझ ले। इन बातों को जान ले! वापस आने और यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा को समय से लेकर अभिषिक्त के आने के समय तक सात सप्ताह बीतेंगे। इसके बाद यरूशलेम फिर से बसाया जायेगा। यरूशलेम में लोगों के परस्पर मिलने के स्थान फिर से ब जायेंगे। नगर की रक्षा करने के लिये नगर के चारों ओर खाई भी होगी। बासठ सप्ताह तक यरूशलेम को बसाया जायेगा। किन्तु उस समय बहुत सी विपत्तियाँ आयेंगी।

26 וְאַחֲרָי הַשְּׁבַעִים שְׁשִׁים וְשָׁנִים יִכָּרֵת מְשִׁיחַ וְאַיִן לוֹ וְהָעִיר וְהַקִּדְשׁ
 और-बाद-में सप्ताहों साठ और-दो काटा-जाएगा मसीहा और-कोई-नहीं उसका और-नगर और-पवित्र-स्थान
 H7620 H8346 H8147 H3772 H4899 H0369 H6944

יְשָׁחִית עַם נְאִיד הַבָּא וְקִצְוֹ בְּשִׁטָּף וְעַד קָץ מְלֻחָמָה נְחָרָצָת שְׁמֹמֹת:
 नष्ट-करेगा लोग नागीद आनेवाले-के और-उसका-अंत और-बाढ़ में-बाढ़ अंत युद्ध उजाड़
 H7843 H5057 H0935 H7093 H7858 H5704 H7093 H4421 H2782 H8074

बासठ सप्ताह बाद उस अभिषिक्त पुरुष की हत्या कर दी जायेगी। वह चला जायेगा। फिर होने वाले नेता के लोग नगर को और उस पवित्र ठांव को तहस—नहस कर देंगे। वह अंत ऐसे आयेगा जैसे बाढ़ आती है। अंत तक युद्ध होता रहेगा। उस स्थान को पूरी तरह तहस—नहस कर देने की परमेश्वर आज्ञा दे चुका है।

27 וְהַגְּבִיר וְהַגְּבִיר בְּרִית לְרָבִים שְׁבוּעַ אֶחָד וְחֲצִי הַשְּׁבוּעַ וְנִשְׁבִּית זָבַח וּמִנְחָה וְעַל
 और-दृढ़-करेगा वाचा के-लिए-बहुतों सप्ताह एक और-आधा सप्ताह बंद-करेगा बलि और-भेंट और-पर
 H1396 H1285 H2677 H7620 H2077 H4503

כָּנָף שְׁקֻצִים מְשִׁיחַ וְעַד- כָּלָה וְנִחְרָצָה וְתָרַח עַל- שְׁמֹם:
 पंख घृणित-वस्तुओं-की उजाड़नेवाला और-तक- अंत और-निर्धारित उडेली-जाएगी पर- उजाड़नेवाले
 H3671 H8251 H8074 H5704 H3617 H2782 H5413 H8074

“इसके बाद वह भावी शासक बहुत से लोगों के साथ एक वाचा करेगा। वह वाचा एक सप्ताह तक चलेगा। भेंट और बलियाँ आधे सप्ताह तक रूकी रहेंगी और फिर एक विनाश कर्ता आयेगा। वह भयानक विध्वंसक बातें करेगा। किन्तु परमेश्वर उस विनाश कर्ता के सम्पूर्ण विनाश की आज्ञा दे चुका है।”